

A/No. B/MR-3054 / MBD / 2020-21

Schedule XLV-Form No. 134

N/W:- Dalwa kaat to veerpur (Mirjapur)
under MR-3054

RWD, WD, KISHANGANJ-2 **DIVISION**

POTHIA **SUB-DIVISION**

MB No. 1094

MEASUREMENT BOOK

Kamal Engineer's Pvt Ltd.

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्तक में
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो श्री राम प्रसाद
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि०कार्य अवर प्रमण्डल, पोथिया
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल-2
24/6/2020

Sch. XLV—Form No. 134

RWD, WD, KISHANGANJ-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1094

Name of Officer Sri Ramu prasad
Assistant Engineer.

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1st on A/C Roll

Detail of Measurement

1

Name for work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W- M.P. Road from Deluachalt					
to Bistpur culm M.P					
3054					
Army - Komure Engines (P) Ltd.					
Dated Sheet - 24-06-2021					
Dated Cable - 23-03-2021					
Date of Entry - 20-01-2021					
INDEX					

(1) clay and subgrade work

Worked sheet details

$$- 10 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 600 \text{ m}^2$$

$$- 30 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 1800 \text{ m}^2$$

$$- 10 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 600 \text{ m}^2$$

$$- 30 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 1800 \text{ m}^2$$

$$- 20 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 1200 \text{ m}^2$$

$$= 6000 \text{ m}^2$$

nil or 60 Hrs

(2) Asphalted subgrade work

Worked sheet details

$$- 10 \times 30 \times 2 \times 0.70 \times 0.30 = 126 \text{ m}^3$$

$$- 40 \times 30 \times 2 \times 0.70 \times 0.30 = 504 \text{ m}^3$$

$$- 30 \times 30 \times 2 \times 1.00 \times 0.30 = 540 \text{ m}^3$$

$$- 20 \times 30 \times 2 \times 0.70 \times 0.20 = 168 \text{ m}^3$$

$$= 1338 \text{ m}^3$$

Continuation

Abstract of Cost

21

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) clay and subsoil under grass dolo					
Quake No (1) P-1					
12 0.60 Hg					
@ 51133.76/dia — 30680 = 0					
(2) Cement to Subsoil under 8th floor dolo					
Quake No (2) P-1 12					
1328 m ³					
@ 17686/m ³ — 236687 = 0					
(3) Paving put hollow mlt					

155 B mlt and mlt					
dolo					
Quake No (3) P-6 12					
188.752 m ³					
@ 1621.01/m ³ — 305969 = 0					
(4) Paving put hollow mlt					
with 12 m 12 m 12 m					
dolo					
Quake No (4) P-13 12					
110.375 m ³					
@ 4718.95/m ³ — 520854 = 0					
(5) Paving put hollow mlt					
with 12 m 12 m 12 m					
dolo					

Continuation

all

P 1094142 = 0

P-F-0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			BF m	1094	142200
Quake sh No (5) P-18					
142.832 m ³					
4406.23/m ³ — m					633763=00
(6) Pinder Pinder ant					
with Pinder edson dls					
Quake sh No (6) P-1942					
1917.76 m ²					
Qu 43.68/m ² — m					83768=00
(H) Pinder truck ant with					
Pinder edson dls					
Quake sh No (7) P-1942					
1917.76 m ²					
Qu 14.83/m ² — m					28440=00
(8) Pinder Pinder Pinder					
with multiple dls					
Quake sh No (8) P-1942					
1917.76 m ²					
Qu 221.80/m ² — m					425359=00
(9) Pinder Truck ant with					
PS, dls					
Quake sh No (9) P-1942					
9450 m ²					
Qu 1241/m ² — m					117274=00
			PS	2382	746=00

Continuation

P.T.O.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		BF m	2382	746	200
(10) Building SD BC mlt					
Building clear					
Area sh. to (10) P-19 m					
236-25 m ³					
Qm 11308-191 m ³ -					2671560200
					H 5054306200
Add 12 y. CST					606517200
Add 14. inches Cell (+)					50543200
Add Setingmank per (+)					49860200
					M 5761226200
As per Amount					
0.05 f. Ballo					(-) 2881200

M 5758345200

1
 20.1.2021
 SE